



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, जनवरी 25—जनवरी 31, 2009, शनिवार/माघ 5—माघ 11, 1930
No. 4] NEW DELHI, JANUARY 25—JANUARY 31, 2009, SATURDAY/MAGHA 5—MAGHA 11, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

आ. अ. 6.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश के साधारण निर्वाचन, के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है ;

सारणी

| क्र.सं. | निर्वाचन का विवरण | निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता | निरर्हता का कारण |
|---------|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र के विधान सभा 2007 के लिये साधारण निर्वाचन । | 25-हमीरपुर | श्री हरदयाल सिंह फूल, गांव बजुरी, डा., तहसील व जिला-हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश | निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 2. | -वही- | 44-पालमपुर | श्री विनोद कुमार, गांव व डा.-राख, तहसील- पालमपुर, जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश | -वही- |

[सं. 76/हि. प्र.-वि.स./2008(5)]

आदेश से,

स्टेन्डहोप युहलंग, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2009

O.N. 6.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | No. and Name of Constituency | Name and address of contesting candidates | Reasons for disqualification |
|---------|---|------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | General Election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 2007 | 25-Hamirpur, A.C. | Sh. Hardayal Singh Phul, Vill.-Bajuri, P.O. Tehsil & Distt.-Hamirpur (HP) | Failure to lodge account of election expenses. |
| 2. | -do- | 44-Palampur, AC | Sh. Vinod Kumar, Vill. & PO. Rakh, Tehsil-Palampur Distt.-Kangra (HP) | -do- |

[No. 76/HP-LA/2008(5)]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

आ. अ.7.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ, (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा के उप निर्वाचन, 2008 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है :

सारणी

| क्र.सं. | निर्वाचन का विवरण | संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता | निरहता का कारण |
|---------|-----------------------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | लोकसभा के उप-निर्वाचन, 2008 | 10-थाना | आसिया इस्माईल आगा, आसिया हाउस, हाजुरी दारगा, रोड नं. 9, वागले इस्टेट, थाना | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा। |
| 2. | -वही- | 10-थाना | इस्माईल इब्राहिम दावन्ना, इकबाल मिर्ची बिल्डिंग, रेतिबुन्दर रोड, गोविन्दवादी, कल्याण (पश्चिम), जिला-थाना | -वही- |

[सं. 76/महाराष्ट्र-लो.स./2008(उप)]

आदेश से,

एस. के. रूडोला, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2009

O.N. 7.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the bye election to Lok Sabha, 2008 from the State of Maharashtra specified in column 2 and held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | Sl. No. and Name of Parliamentary Constituency | Name and address of contesting candidates | Reasons for disqualification |
|---------|----------------------------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Bye Elections to Lok Sabha, 2008 | 10-Thane | Ashia Ismil Aaga, Ashia House, Hajuri Darga Road No. 9, Wagle Estate, Thane | Failure to lodge any account of his election expenses. |
| 2. | -do- | 10-Thane | Ismail Davanna Ikabal Mirchi Building, Retibandar Road, Govindwadi, Kalyan (West), Dist-Thane. | -do- |

[No. 76/MT-HP/2008 (Bye)]

By Order,

S. K. RUDOLA, Secy.